



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 774 राँची, शनिवार,

5 अक्टूबर, 2019 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2019

संख्या:- 1/नीति-28/2018-2462 -- झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की उपधारा 1 एवं उपधारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा अधिसूचित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 439 दिनांक 02.03.2019 द्वारा संशोधित "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" में निम्नरूपेण संशोधन करते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ -

- (1) यह नियमावली "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जायेगी।
- (2) यह अधिसूचना संपूर्ण झारखंड राज्य क्षेत्र में लागू होगा।
- (3) उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियमावली के नियम संख्या 2 (xxx), 11, 14 (vi), 24, 25(3) एवं 25(5) में संशोधन/प्रतिस्थापन तथा नियम संख्या 2(xxxvi), 3(iv), 6(1) से (7) तथा 14(vi)(5) का विलोपन निम्नवत किया जाता है -

झारखण्ड गजट (असाधारण) शनिवार, 5 अक्टूबर, 2019

क्र०	मूल नियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित/प्रतिस्थापित नियम
1	2 (xxx)	“अतिरिक्त उत्पाद कर” का तात्पर्य, देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी मदिरा, विदेशी शराब/बीयर इत्यादि के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य को अगले पूर्णांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अंतर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी, बोटलबंदी इकाई स्तर पर वसूलनीय होगी।	“अतिरिक्त उत्पाद कर” का तात्पर्य, देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी मदिरा, विदेशी शराब/बीयर इत्यादि के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य को निम्नवत पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अंतर की धनराशि से है, जो खुदरा अनुज्ञाधारियों से JSBCL के थोक बिक्री गोदाम स्तर पर वसूलनीय होगी - क) 01 से 90 रुपये तक MRP वाली मदिरा - अगले 5 ₹0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी। ख) 91 से 950 रुपये तक MRP वाली मदिरा - अगले 10 ₹0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी। ग) 951 से 1950 रुपये तक MRP वाली मदिरा - अगले 50 ₹0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी। घ) 1951 से अधिक मूल्य की MRP वाली मदिरा - अगले 100 ₹0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।
2	2(xxxvi)	"बीयर एवं वाइन की ऑफ बिक्री की दुकान" से अभिप्रेत है, 15% v/v से कम अल्कोहलिक शक्ति की मदिरा यथा बीयर, वाइन, ब्रीजर इत्यादि की बिक्री की ऑफ दुकान।	विलोपित।
3	3(iv)	बीयर एवं वाइन की ऑफ बिक्री की दुकान - इन दुकानों के द्वारा कम अल्कोहलिक शक्ति की मदिरा (15% v/v से न्यून) यथा बीयर, वाइन, ब्रीजर इत्यादि की बिक्री की जायेगी। ये अनुज्ञप्तियाँ उन्हीं Grocery/General Stores की दुकान, को दी जायेंगी, जो कम-से-कम 3 (तीन) वर्षों से संचालित की जा रही हों।	विलोपित।
4	6	बीयर एवं वाइन की ऑफ दुकान का संचालन - (1) नगर निकायों में ये अनुज्ञप्तियाँ वैसे Grocery/General Stores को दी जायेंगी, जो कम-से-कम तीन वर्ष से कार्यरत हो। नगर निगम क्षेत्र में इस प्रकार की दुकान के लिए, आवेदक का विगत वर्ष का GST Return में कम-से-कम 50 (पचास) लाख रुपये की राशि तथा नगरपरिषद क्षेत्र व नगर पंचायत क्षेत्र में इस प्रकार की दुकान के लिए आवेदक का विगत वर्ष का GST Return में कम-से-कम 30 (तीस) लाख रुपये की राशि विगत वित्तीय वर्ष में दाखिल की गई हो। (2) बीयर एवं वाइन की ऑफ दुकान की संख्या जिलावार निर्धारित की जायेगी। दुकानों की संख्या का निर्धारण उस जिला के लिए स्वीकृत कुल खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या का 10% से अधिक नहीं होगा। ये अनुज्ञप्तियाँ सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान की जाएंगी एवं प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में इनका नवीकरण विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व की शक्तों के अनुरूप किया जायेगा। इस प्रकार की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे एवं जिलावार विभाग द्वारा आकलित संख्या से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी विधि से इन दुकानों की बंदोबस्ती की जायेगी। विभाग द्वारा आकलित संख्या से कम आवेदन प्राप्त होने पर योग्य आवेदकों के साथ दुकानों की बंदोबस्ती कर दी जायेगी।	विलोपित।

		<p>(3) इन दुकानों में बीयर/वाईन/ब्रीजर इत्यादि का उपभोग प्रतिबंधित है। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बीयर/वाईन/ब्रीजर इत्यादि की बिक्री नहीं की जायेगी। अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा उपभोग करते हुए पाये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के सुसंगत धाराओं के तहत दण्ड का भागी होगा एवं उसकी अनुज्ञप्ति भी विखंडित की जा सकती है।</p> <p>(4) इस प्रकार की अनुज्ञप्तियों का अनुज्ञप्ति शुल्क रु० 120000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) प्रति वित्तीय वर्ष होगा तथा वित्तीय वर्ष के बीच में बंदोबस्ती होने पर समानुपातिक रूप से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। बीयर एवं वाईन की ऑफ दुकान का अनुज्ञाधारी रु० 120000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) जमानत की राशि (Security Deposit) के रूप में जमा करेगा।</p> <p>(5) अनुज्ञप्तिधारी बीयर/वाईन का उठाव झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थोक बिक्री गोदाम से करेगा। मदिरा के उठाव हेतु अनुज्ञाधारी JSBCL के थोक बिक्री मूल्य, उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) सहित, अग्रिम रूप में जमा करेगा।</p> <p>(6) इन दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित नहीं की जायेगी।</p> <p>(7) अनुज्ञाधारी को बीयर को ठंडा रखने के लिए फ्रीज की व्यवस्था करनी होगी एवं इसे चालू अवस्था में रखना होगा।</p>	
5	11	<p>खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की तिथि का निर्धारण - (1) विभिन्न जिलों में किसी अवधि के लिए बंदोबस्ती की प्रथम तिथि का निर्धारण आयुक्त उत्पाद द्वारा निश्चित एवं अधिसूचित की जायेगी। बंदोबस्ती की इन तिथियों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए अनुज्ञप्ति पदाधिकारियों को सूचित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी अपने जिलों से संबंधित दुकानों की विस्तृत सूची एवं वांछित सूचनाओं को प्रकाशित कराते हुए अभ्यावेदन आमंत्रित करेंगे तथा निर्धारित तिथियों को विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्ती की कार्यवाई संपादित करायेंगे।</p> <p>(2) अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा प्रथम चक्र की बंदोबस्ती के पश्चात शेष अनुज्ञप्तियों के बंदोबस्ती की तिथि की घोषणा की जायेगी एवं कार्यक्रम को अधिसूचित एवं प्रकाशित किया जायेगा। राजस्व हित में अबंदोबस्त अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु अविलंब (अधिकतम 7 दिनों के अंदर) पुनः बंदोबस्ती अधिसूचना प्रकाशित कर दी जायेगी।</p> <p>(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारम्भ करने की तिथि, आयुक्त उत्पाद द्वारा अलग से घोषित की जायेगी।</p>	<p>खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की तिथि का निर्धारण - (1) विभिन्न जिलों में किसी अवधि के लिए बंदोबस्ती की प्रथम तिथि का निर्धारण आयुक्त उत्पाद द्वारा निश्चित एवं अधिसूचित की जायेगी। बंदोबस्ती की इन तिथियों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए अनुज्ञप्ति पदाधिकारियों को सूचित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी अपने जिलों से संबंधित दुकानों की विस्तृत सूची एवं वांछित सूचनाओं को प्रकाशित कराते हुए अभ्यावेदन आमंत्रित करेंगे तथा निर्धारित तिथियों को विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्ती की कार्यवाई संपादित करायेंगे।</p> <p>(2) अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती प्रक्रिया के पश्चात सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर शेष अनुज्ञप्तियों के बंदोबस्ती की तिथि की घोषणा की जायेगी एवं कार्यक्रम को अधिसूचित एवं प्रकाशित किया जायेगा। राजस्व हित में अबंदोबस्त अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु यथाशीघ्र (किसी चरण में संपूर्ण बंदोबस्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के 3 सप्ताह के अंदर) पुनः बंदोबस्ती अधिसूचना प्रकाशित कर दी जायेगी।</p> <p>(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारम्भ करने की तिथि, आयुक्त उत्पाद द्वारा अलग से घोषित की जायेगी।</p>
6	14(vi)	पैन कार्ड एवं ITR/GST Return की छायाप्रति निम्नरूपेण संलग्न करना होगा -	पैन कार्ड एवं ITR/GST Return की छायाप्रति निम्नरूपेण संलग्न करना होगा -

झारखण्ड गजट (असाधारण) शनिवार, 5 अक्टूबर, 2019

क्र०	दुकान का प्रकार	पैन कार्ड/ GSTIN	ITR/GST Return	ITR/GST Return में दर्ज आय/ Turnover	क्र०	दुकान का प्रकार	पैन कार्ड/ GSTIN	ITR/GST Return	ITR/GST Return में दर्ज आय/ Turnover
1	देशी शराब की ऑन एवं ऑफ दुकान	PAN अनिवार्य है।	अनिवार्य नहीं है।	-	1	देशी शराब की ऑन एवं ऑफ दुकान	PAN अनिवार्य है।	अनिवार्य नहीं है।	-
2	विदेशी शराब की ऑफ दुकानें	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	2.5 लाख रुपये से अधिक {वित्तीय वर्ष 2016-17, कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2018-18}	2	विदेशी शराब की ऑफ दुकानें	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	2.5 लाख रुपये से अधिक {गत कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year)}
3	ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	2.5 लाख रुपये से अधिक {वित्तीय वर्ष 2016-17, कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2018-18}	3	ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	2.5 लाख रुपये से अधिक {गत कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year)}
4	मॉल में विदेशी मदिरा की ऑफ दुकानें	GSTIN अनिवार्य है।	GST Return अनिवार्य है।	5 लाख रुपये से अधिक {वित्तीय वर्ष 2016-17, कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2018-18}	4	मॉल में विदेशी मदिरा की ऑफ दुकानें	GSTIN अनिवार्य है।	GST Return अनिवार्य है।	5 लाख रुपये से अधिक {गत कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year)}
5	बीयर एवं वाइन की ऑफ बिक्री की दुकान	GSTIN अनिवार्य है।	GST Return अनिवार्य है।	विगत वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक (नगर निगम क्षेत्र के लिए) एवं 30 लाख रुपये से अधिक (अन्य क्षेत्रों के लिए) (Assessment Year 2017-18)	5	विलोपित।			
6	Departmental Stores में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोटलबंद) की बिक्री की दुकानें	GSTIN अनिवार्य है।	GST Return अनिवार्य है।	2 करोड़ रुपये से अधिक विगत वर्ष (Assessment Year 2017-18)	6	Departmental Stores में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोटलबंद) की बिक्री की दुकानें	GSTIN अनिवार्य है।	GST Return अनिवार्य है।	2 करोड़ रुपये से अधिक गत कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year)
राज्य में मदिरा के विनिर्माणकर्ता/आपूर्तिकर्ता अनुज्ञप्तिधारी, खुदरा अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य पात्र नहीं होंगे।					राज्य में मदिरा के विनिर्माणकर्ता/आपूर्तिकर्ता अनुज्ञप्तिधारी, खुदरा अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य पात्र नहीं होंगे।				

7	24	<p>मासिक उत्पाद परिवहन कर का भुगतान - (1) प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर के 12वें भाग का भुगतान, उत्पाद परिवहन कर जमा करने हेतु JSBCL द्वारा संधारित बैंक खाता में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 15वीं तिथि तक करना अनिवार्य होगा। 15वीं तारीख तक उत्पाद परिवहन कर जमा नहीं करने पर विलंब होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद परिवहन कर पर प्रति दिन 5% की दर से विलंब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी। यदि माह के 15वीं को अवकाश हो, तो उसके अगले कार्य दिवस को उत्पाद परिवहन कर जमा किया जा सकेगा एवं ऐसी परिस्थिति में विलंब शुल्क की राशि देय नहीं होगी। सामान्यतः दुकान का उत्पाद परिवहन कर वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से जमा किया जायेगा, परंतु यदि दुकान की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष के मध्य में होती है, तो उस माह की शेष अवधि के लिए उत्पाद परिवहन कर समानुपातिक रूप में जमा किया जायेगा तथा आगामी माह से प्रत्येक माह में वार्षिक उत्पाद परिवहन कर का 1/12वाँ जमा किया जायेगा।</p> <p>(2) उत्पाद परिवहन कर की राशि प्राप्त करने के उपरांत JSBCL के द्वारा इसे प्रत्येक सोमवार या अगले कार्य दिवस को राज्य कोषागार में जमा कर दिया जायेगा। JSBCL के द्वारा मदिरा आपूर्तिकर्ता कम्पनियों को मदिरा का JSBCL में लैंडिंग मूल्य का भुगतान भी प्रत्येक सोमवार अथवा उसके अगले कार्य दिवस को कर दिया जायेगा।</p>	<p>मासिक उत्पाद परिवहन कर का भुगतान - (1) प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर, JSBCL द्वारा संधारित बैंक खाता में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 25वीं तिथि तक निम्न तालिका के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा -</p> <table border="1" data-bbox="869 320 1412 1283"> <thead> <tr> <th>क्र०</th><th>त्रैमास</th><th>माह का नाम</th><th>न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर का प्रतिशत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">प्रथम त्रैमास</td><td>अप्रैल</td><td>9%</td></tr> <tr> <td>मई</td><td>9%</td></tr> <tr> <td>जून</td><td>9%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">द्वितीय त्रैमास</td><td>जुलाई</td><td>6%</td></tr> <tr> <td>अगस्त</td><td>6%</td></tr> <tr> <td>सितम्बर</td><td>7%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">तृतीय त्रैमास</td><td>अक्टूबर</td><td>9%</td></tr> <tr> <td>नवम्बर</td><td>9%</td></tr> <tr> <td>दिसम्बर</td><td>9%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">चतुर्थ त्रैमास</td><td>जनवरी</td><td>9%</td></tr> <tr> <td>फरवरी</td><td>9%</td></tr> <tr> <td>मार्च</td><td>9%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>कुल</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>25वीं तारीख तक उत्पाद परिवहन कर जमा नहीं करने पर विलंब होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद परिवहन कर पर प्रति दिन 5% की दर से विलंब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी। यदि माह के 25वीं तिथि को अवकाश हो, तो उसके अगले कार्य दिवस को उत्पाद परिवहन कर जमा किया जा सकेगा एवं ऐसी परिस्थिति में विलंब शुल्क की राशि देय नहीं होगी। सामान्यतः दुकान का उत्पाद परिवहन कर वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से जमा किया जायेगा, परंतु यदि दुकान की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष के मध्य में होती है, तो उस माह की शेष अवधि के लिए उत्पाद परिवहन कर समानुपातिक रूप में जमा किया जायेगा तथा आगामी माह से प्रत्येक माह के लिए निर्धारित उत्पाद परिवहन कर के अनुरूप जमा किया जायेगा।</p> <p>(2) उत्पाद परिवहन कर की राशि प्राप्त करने के उपरांत JSBCL के द्वारा इसे प्रत्येक सोमवार या अगले कार्य दिवस को राज्य कोषागार में जमा कर दिया जायेगा। JSBCL के द्वारा मदिरा आपूर्तिकर्ता कम्पनियों को मदिरा का JSBCL में लैंडिंग मूल्य का भुगतान भी प्रत्येक सोमवार अथवा उसके अगले कार्य दिवस को कर दिया जायेगा।</p>	क्र०	त्रैमास	माह का नाम	न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर का प्रतिशत	1	प्रथम त्रैमास	अप्रैल	9%	मई	9%	जून	9%	2	द्वितीय त्रैमास	जुलाई	6%	अगस्त	6%	सितम्बर	7%	3	तृतीय त्रैमास	अक्टूबर	9%	नवम्बर	9%	दिसम्बर	9%	4	चतुर्थ त्रैमास	जनवरी	9%	फरवरी	9%	मार्च	9%			कुल	100%
क्र०	त्रैमास	माह का नाम	न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर का प्रतिशत																																								
1	प्रथम त्रैमास	अप्रैल	9%																																								
		मई	9%																																								
		जून	9%																																								
2	द्वितीय त्रैमास	जुलाई	6%																																								
		अगस्त	6%																																								
		सितम्बर	7%																																								
3	तृतीय त्रैमास	अक्टूबर	9%																																								
		नवम्बर	9%																																								
		दिसम्बर	9%																																								
4	चतुर्थ त्रैमास	जनवरी	9%																																								
		फरवरी	9%																																								
		मार्च	9%																																								
		कुल	100%																																								
8	25 (3)	<p>अनुज्ञप्तिधारी मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव माह की अंतिम तिथि तक कर सकता है, परंतु वह मदिरा के उठाव हेतु सभी प्रकार के वांछित शुल्कों/कर के भुगतान के</p>	<p>i) अनुज्ञप्तिधारी मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव माह की अंतिम तिथि तक कर सकता है, परंतु वह मदिरा के उठाव हेतु सभी प्रकार के वांछित शुल्कों/कर के भुगतान के पश्चात माह</p>																																								

		<p>पश्चात माह की 25वीं तारीख तक Indent, JSBCL के थोक बिक्री केन्द्र को परमिट के साथ उपलब्ध करा देगा, ताकि ससमय मदिरा का निर्गमन दिया जा सके। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी अपरिहार्य कारणवश उक्त माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं कर पाता है, तो वह लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा कि नहीं उठायी गई मात्रा को अगले माह के 10वीं तारीख तक अवश्य उठाव कर लेगा। यदि अनुज्ञाधारी अगले माह की 10वीं तारीख तक ऐसा नहीं करता है, तो उसे उस न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी), जिसका उठाव नहीं किया गया है, के समतुल्य राशि कोषागार में जमा कर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर शेष बचे न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) पर प्रतिदिन 5% की दर से विलंब शुल्क जमा करना होगा।</p> <p>किसी माह के शेष बचे न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के समतुल्य मदिरा का अगले माह में उठाव का अवसर वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो बार अनुज्ञप्तिधारी को दिया जायेगा, परंतु यह दो बार का अवसर लगातार (Consecutive) महीने में नहीं दिया जायेगा। मार्च माह का न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के समतुल्य मदिरा का उठाव अप्रैल माह में नहीं किया जा सकेगा।</p>	<p>की 25वीं तारीख तक Indent, JSBCL के थोक बिक्री केन्द्र को परमिट के साथ उपलब्ध करा देगा, ताकि ससमय मदिरा का निर्गमन दिया जा सके। यदि अनुज्ञप्तिधारी उक्त माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं कर पाता है, तो उसे उस न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी), जिसका उठाव नहीं किया गया है, के समतुल्य राशि कोषागार में जमा कर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर शेष बचे न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) पर प्रतिदिन 5% की दर से विलंब शुल्क जमा करना होगा।</p> <p>मार्च माह का न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के समतुल्य मदिरा का उठाव अप्रैल माह में नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>ii) कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारी को प्रत्येक माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर के 12% उत्पाद कर के समतुल्य देशी/मसालेदार देशी शराब का उठाव अवश्य करना होगा।</p>
9	25 (5)	<p>यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) (Minimum Guranteed Duty) की राशि के समतुल्य मदिरा से अधिक मदिरा का उठाव करना चाहता है, तो उसे समानुपातिक रूप से उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) भी अग्रिम रूप में जमा करना होगा।</p>	<p>यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी, दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) (Minimum Guranteed Duty), की राशि के समतुल्य मदिरा से अधिक मदिरा का उठाव करना चाहता है, तो उसे समानुपातिक रूप से उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) भी अग्रिम रूप में जमा करना होगा। अनुज्ञाधारी के Wallet (अनुज्ञप्ति हेतु सृजित लेन.देन से संबंधित खाता) में से समानुपातिक अतिरिक्त उत्पाद परिवहन कर की कटौती JSBCL के द्वारा प्रत्येक माह के 30 तारीख को कर ली जायेगी एवं इसे अगले सोमवार को राज्य कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।</p>

3. मूल नियमावली तथा अधिसूचना संख्या 439 दिनांक 02.03.2019 द्वारा संशोधित नियमावली में संशोधित नियम के अतिरिक्त शेष नियम यथावत रहेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल शर्मा,
सरकार के सचिव।
